



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12072022-237259
CG-DL-E-12072022-237259

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 356]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 12, 2022/आषाढ 21, 1944

No. 356]

NEW DELHI, TUESDAY, JULY 12, 2022/ASHADHA 21, 1944

भारतीय मानक ब्यूरो
(उपभोक्ता मामले विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जुलाई, 2022

संदर्भ: HQ-PUB013/1/2020-PUB-BIS (375).— भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 2018 के नियम 15 के उपनियम (1) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतद्वारा अधिसूचित करता है कि जिन भारतीय मानकों के विवरण इसमें संलग्न अनुसूची के द्वितीय स्तंभ में दिये गये हैं, तीसरे स्तंभ में इंगित तिथि को स्थापित हो गये हैं। चौथे स्तंभ में दिये गये मानकों के विवरण, यदि कोई हो तो वे भी साथ-साथ लागू रहेंगे जब तक वे पाँचवें स्तंभ में इंगित तिथि को वापस लिए जाने हैं।

अनुसूची

क्रम सं.	स्थापित भारतीय मानकों की संख्या, वर्ष तथा शीर्षक	प्रतिस्थापन तिथि	भारतीय मानकों, यदि वापस लिए जाने हैं, की संख्या, वर्ष तथा शीर्षक	वापस होने की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	आई एस 15638 (भाग 3) : 2022/आई	30 जून 2022	लागू नहीं	लागू नहीं

	ई सी 61083-3 : 2020 उच्च वोल्टता एवं उच्च करंट परीक्षणों में मापन हेतु प्रयुक्त उपकरण एवं सॉफ्टवेयर भाग 3 प्रत्यावर्ती एवं दिष्ट वोल्टता एवं धारा के साथ परीक्षणों हेतु हार्डवेयर की अपेक्षाएं			
2	आई एस 17896 (भाग 1) : 2022/आई ई सी टी एस 62840-1 : 2016 इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी स्वैप सिस्टम भाग 1 सामान्य और मार्गदर्शन	30 जून 2022	लागू नहीं	लागू नहीं
3	आई एस 17896 (भाग 2) : 2022/आई ई सी टी एस 62840-2 : 2016 इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी स्वैप सिस्टम भाग 2 सुरक्षा अपेक्षाएं	30 जून 2022	लागू नहीं	लागू नहीं
4	आई एस/आई ई सी 60068-2-13 : 2021 पर्यावरण परीक्षण भाग 2 टेस्ट अनुभाग 13 टेस्ट एम: निम्न वायु-दाब	30 जून 2022	आई एस 9000 (भाग XIII) : 1981 इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल आइटम के लिए बुनियादी पर्यावरण परीक्षण प्रक्रियाएं भाग XIII निम्न वायु दाब परीक्षण आई एस 9002 (भाग 14) : 1985 इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल आइटम के लिए पर्यावरण परीक्षण के लिए उपकरण की विशिष्टता भाग 14 निम्न वायु दाब कक्ष	29 जुलाई 2022
5	आई एस/आई ई सी 61557-2 : 2019 1 000 वोल्ट एसी और 1 500 वोल्ट डीसी तक के अल्प वोल्टता वितरण तंत्रों में विद्युत सुरक्षा – सरंक्षी मापों को	30 जून 2022	आई एस/आई ई सी 61557-2 : 2007 1 000 वोल्ट एसी और 1 500 वोल्ट डी सी तक के	29 जुलाई 2022

परीक्षण करने, माप करने या मॉनीटर करने का उपस्कर भाग 2 विद्युतरोधन प्रतिरोधन (पहला पुनरीक्षण)		अल्प वोल्टता वितरण तंत्रों में विद्युत सुरक्षा – संरक्षी मापों को परीक्षण करने, माप करने या मॉनीटर करने का उपस्कर भाग 2 विद्युतरोधन प्रतिरोधन	
--	--	--	--

इन मानकों की प्रतियाँ भारतीय मानक ब्यूरो, मानक भवन, 9 बहादुर शाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली 110002, क्षेत्रीय कार्यालयों: कोलकाता, चंडीगढ़, चेन्नई, मुम्बई तथा शाखा कार्यालयों : अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, कोयम्बटूर, देहरादून, फरीदाबाद, गाज़ियाबाद, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, जमशेदपुर, लखनऊ, नागपुर, परवानू, पटना, पुणे, रायपुर, राजकोट, कोच्चि, विशाखापटनम में बिक्री हेतु उपलब्ध हैं। भारतीय मानकों को <http://www.standardsbis.in> पर आनलाईन खरीदा/डाउनलोड किया जा सकता है।

राजीव शर्मा, वैज्ञानिक एफ एवं उपमहानिदेशक (मानकीकरण-1)

[विज्ञापन-III/4/असा.176/2022-23]

BUREAU OF INDIAN STANDARDS

(Department of Consumer Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th July, 2022

Ref: HQ-PUB013/1/2020-PUB-BIS (375).—In pursuance of Sub-rule (1) of Rule (15) of the Bureau of Indian Standards Rules, 2018, the Bureau of Indian Standards hereby notifies that Indian standards, particulars of which are given in the second column of the schedule hereto annexed have been established on the date indicated against it in third column. The particulars of the standards, if any which are given in the fourth column shall also remain in force concurrently till they are withdrawn on the date indicated against them in the fifth column.

SCHEDULE

Sl. No.	No. Year & Title of the Indian Standards Established	Date of Establishment	No. Year & Title of the Indian Standards to be withdrawn, if any	Date of withdrawal
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	IS 15638 (Part 3) : 2022/IEC 61083-3 : 2020 Instruments and Software Used for Measurement in High-Voltage and High-Current Tests Part 3 Requirements for Hardware for Tests with Alternating and direct Voltages and Currents	30 June 2022	NA	NA
2	IS 17896 (Part 1) : 2022/IEC TS 62840-1 : 2016 Electric Vehicle Battery Swap System Part 1 General and Guidance	30 June 2022	NA	NA
3	IS 17896 (Part 2) : 2022/IEC 62840-2 : 2016 Electric Vehicle Battery Swap System Part 2 Safety Requirements	30 June 2022	NA	NA

4	IS/IEC 60068-2-13 : 2021 Environmental Testing Part 2 Tests Section 13 Test M: Low Air Pressure	30 June 2022	IS 9000 (Part XIII) : 1981 Basic Environmental Testing Procedures for Electronic and Electrical Items Part XIII Low Air Pressure Test IS 9002 (Part 14) : 1985 Specification for Equipment for Environmental Tests for Electronic and Electrical Items Part 14 Low Air Pressure Chamber	29 July 2022
5	IS/IEC 61557-2 : 2019 Electrical Safety in Low Voltage Distribution Systems Up to 1 000 V a.c. and 1 500 V d.c. — Equipment for Testing, Measuring or Monitoring of Protective Measures Part 2 Insulation Resistance (First Revision)	30 June 2022	IS/IEC 61557-2 : 2007 Electrical Safety in Low Voltage Distribution Systems Up to 1 000 V a.c. and 1 500 V d.c. — Equipment for Testing, Measuring or Monitoring of Protective Measures Part 2 Insulation Resistance	29 July 2022

Copies of these standards are available for sale with Bureau of Indian Standards, Manak Bhavan, 9 Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi – 110 002; Regional Offices: Kolkata, Chandigarh, Chennai, Mumbai and Branch Offices: Ahmedabad, Bengaluru, Bhopal, Bhubaneshwar, Coimbatore, Dehradun, Faridabad, Ghaziabad, Guwahati, Hyderabad, Jaipur, Jammu, Jamshedpur, Lucknow, Nagpur, Parwanoo, Patna, Pune, Raipur, Rajkot, Kochi, Vishakhapatnam. Online purchase/downloading of Indian Standards can be made at <http://www.standardsbis.in>.

RAJEEV SHARAMA, Scientist F & DDG (Standardization – I)

[ADVT.-III/4/Exty./176/2022-23]